

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 461]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2015—कार्तिक 28, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2015-इकीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला अलीराजपुर (म. प्र.) हेतु 24-रत्नाम (अजजा) संसदीय एवं 171 देवास विधानसभा के उपचुनाव 2015 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे. के. वैद्य, सचिव.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अलीराजपुर (म. प्र.)

| क्र. | विधानसभा क्षेत्र क्र. एवं नाम | सेक्टर क्र. | सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम |
|------|-------------------------------|-------------|---|
| 1 | 191 अलीराजपुर | 1 | डॉ राजु रावत उपसचालक पशु चिकित्सा सेवाये अलीराजपुर |
| 2 | 191 अलीराजपुर | 2 | श्री एच.एल. पाटील परियोजना अधिकारी जिला पंचायत अलीराजपुर |
| 3 | 191 अलीराजपुर | 3 | श्री आर.एस. चौहान कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.या. अलीराजपुर |
| 4 | 191 अलीराजपुर | 4 | श्री नवीन श्रीवास्तव खण्ड शिक्षा अधिकारी जोबट |
| 5 | 191 अलीराजपुर | 5 | श्री अमरीश चैद्य उपायुक्त सहाकारीता एवं उप पंजीयक संस्थाये अलीराजपुर |
| 6 | 191 अलीराजपुर | 6 | श्री जी.एस. चौहान विष्णु अधिकारी जनपद पंचायत अलीराजपुर |
| 7 | 191 अलीराजपुर | 7 | श्री आर.एस. जमरा जिला शिक्षा अधिकारी अलीराजपुर |
| 8 | 191 अलीराजपुर | 8 | श्री सोमान सिंह चौहान सहा. यंत्री पी.आई.यु. अलीराजपुर |
| 9 | 191 अलीराजपुर | 9 | श्री अशोक कुमार भालेराव उपयंत्री लो.स्वा. या. अलीराजपुर |
| 10 | 191 अलीराजपुर | 10 | श्री नानसिंह मण्डलोई संयुक्त संचालक कृषि विभाग अलीराजपुर |
| 11 | 191 अलीराजपुर | 11 | श्री एम.एस. डामोर कार्यपालन यंत्री पी.आई.यु. अलीराजपुर |
| 12 | 191 अलीराजपुर | 12 | श्री के.एस. सोलंकी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अलीराजपुर |
| 13 | 191 अलीराजपुर | 13 | श्री जे.एस. डामोर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अलीराजपुर |
| 14 | 191 अलीराजपुर | 14 | श्री विजय सिंह पटेल सहा. यंत्री लो. नि.वि. जोबट |
| 15 | 191 अलीराजपुर | 15 | श्री हरेसिंह भवेल सहा. यंत्री ग्रा.या. से. अलीराजपुर |
| 16 | 191 अलीराजपुर | 16 | श्री एच.एस.सैयद प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग अलीराजपुर |
| 17 | 191 अलीराजपुर | 17 | श्री आर.एस. बामनिया प्राचार्य डाइट अलीराजपुर |
| 18 | 191 अलीराजपुर | 18 | श्री ए.के. सोलंकी उप वनमण्डलाधिकारी च.शे.आ. नगर |
| 19 | 191 अलीराजपुर | 19 | श्री गिरिधर ठाकरे खण्ड शिक्षा अधिकारी सोणडवा |
| 20 | 191 अलीराजपुर | 20 | श्री सतीश चन्द्र दुबे सहा. श्रम पदाधिकारी अलीराजपुर |
| 21 | 191 अलीराजपुर | 21 | श्री दिवाकर केशर उपयंत्री लो.स्वा. या. अलीराजपुर |
| 22 | 191 अलीराजपुर | 22 | श्री आर.एस. चौहान सहायक यंत्री ग्रा.या. से. च.शे.आ.नगर |
| 23 | 191 अलीराजपुर | 23 | श्री चन्द्र चंद्र भाटी सहा. शत्यज्ञ पशु चिकित्सा अलीराजपुर |
| 24 | 191 अलीराजपुर | 24 | श्री एच.आर. सुमन जिला आपूर्ति अधिकारी अलीराजपुर |
| 25 | 191 अलीराजपुर | 25 | श्री प्रदीप मुजाल्दा सहा. यंत्री जल संसाधन सोणडवा |
| 26 | 191 अलीराजपुर | 26 | श्री एम.एस. कनेश अतिरिक्त मुकाबिलीकारी जिला पंचायत अलीराजपुर |
| 27 | 191 अलीराजपुर | 27 | श्री कोमल सिंह उड़िके कार्यपालन यंत्री लो.नि. विभाग अलीराजपुर |
| 28 | 191 अलीराजपुर | 28 | श्री सुमीत निगवाल उपयंत्री लो.स्वा.या. अलीराजपुर |
| 29 | 192 जोबट | 29 | श्री मुकेश भूरिया आई.सी.डी.एस. च.शे.आ.नगर |
| 30 | 192 जोबट | 30 | श्री रामेश्वर सोलंकी उप संचालक कृषि विभाग अलीराजपुर |
| 31 | 192 जोबट | 31 | श्री उमेश वास्कले सहा. यंत्री जल संसाधन विभाग अलीराजपुर |
| 32 | 192 जोबट | 32 | श्री राजेश ठाकुर वरिष्ठ उपयंत्री ग्रा. या. सेवा च.शे.आ. नगर |
| 33 | 192 जोबट | 33 | श्री एस.एस. गोड कार्यपालन यंत्री ग्रा. या. सेवा अलीराजपुर |
| 34 | 192 जोबट | 34 | श्री डी.एस. सोलंकी मुख्य कार्य अधिकारी जनपद पंचायत कटठीवाडा |
| 35 | 192 जोबट | 35 | श्री कैलाश चौहान वरिष्ठ उपयंत्री ग्रा. या. सेवा उदयगढ़ |
| 36 | 192 जोबट | 36 | श्री भूरसिंह रावत मुख्य कार्य अधिकारी जनपद पंचायत उदयगढ़ |

| | | | |
|----|--------------------------|--------|--|
| 37 | 192 जोबट | 37 | श्री एस.एल. प्रजापति सहा. यंत्री लो.स्वा.या. अलीराजपुर |
| 38 | 192 जोबट | 38 | श्री नवलसिंह भूरिया सहा. यंत्री लो.स्वा.या. अलीराजपुर |
| 39 | 192 जोबट | 39 | श्री ए.के. कपूर सहा. यंत्री लो.स्वा.या. अलीराजपुर |
| 40 | 192 जोबट | 40 | डॉ ए.के.पारीख सहा. वन संरक्षक अलीराजपुर |
| 41 | 192 जोबट | 41 | श्री एस.सी. शासा सहा. परियोजना अधिकारी आई.टी.डी.पी. अलीराजपुर |
| 42 | 192 जोबट | 42 | डॉ मालसिंह खरत सहा. शल्यज्ञ पशु चिकित्सा च.रो.आ.नगर |
| 43 | 192 जोबट | 43 | श्री आर.के.गर्ग सहा. प्रबंधक प्र.ग्रा.स.योजना अलीराजपुर |
| 44 | 192 जोबट | 44 | श्री सिवका भूमि संरक्षण अधिकारी जोबट |
| 45 | 192 जोबट | 45 | श्री नरेन्द्र भिडे सहा. संचालक आदिवासी विकास विभाग अलीराजपुर |
| 46 | 192 जोबट | 46 | श्री मनोज खेडे सहा. प्रबंधक प्र.ग्रा.स.योजना अलीराजपुर |
| 47 | 192 जोबट | 47 | श्री आर.के. शितोले सहा. प्रबंधक प्र.ग्रा.स.योजना अलीराजपुर |
| 48 | 192 जोबट | 48 | श्री बी.एस. जमरा प्राचार्य पोलोटेक्नीक महाविद्यालय अलीराजपुर |
| 49 | 192 जोबट | 49 | श्री जगन्नाथ चौधरी उपर्यंत्री ग्रा. या. से. जोबट |
| 50 | 192 जोबट | 50 | श्री महिमा राम पिपलीया मुख्य नगरपालिका अधिकारी जोबट |
| 51 | 192 जोबट | 51 | श्री कैलाश मकवाना सहा. यंत्री जनपद पंचायत जोबट |
| 52 | 192 जोबट | 52 | श्री त्रिलोकचन्द्र वास्कले सहा. संचालक उद्यानिकी विभाग अलीराजपुर |
| 53 | 192 जोबट | 53 | श्री सी.एस. अलावा सहा. यंत्री ग्रा. या. सेवा जोबट |
| 54 | 192 जोबट | 54 | श्री सोहनसिंह झनिया सहा. यंत्री जनपद पंचायत च.रो.आ. नगर |
| 55 | 192 जोबट | 55 | डॉ शिवप्रताप सिंह चौहान सहा. शल्यज्ञ पशु चिकित्सा अलीराजपुर |
| 56 | 192 जोबट | 56 | श्री सतीश सिंह खण्ड शिक्षा अधिकारी च.रो.आ. नगर |
| 57 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | डॉ. कुवरसिंह भयडिया, सहा० शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय, जोबट |
| 58 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | डॉ. मगनसिंह ढुडवे, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, जोबट |
| 59 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | डॉ. चोशनलाल बैरवा, पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, अलीराजपुर |
| 60 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | श्री राकेश मण्डलोई, उपर्यंत्री पी०आई०ओ०, अलीराजपुर |
| 61 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | श्री निखिलेश गोले, उपर्यंत्री पी०आई०ओ०, अलीराजपुर |
| 62 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | श्री मोहनसिंह भेडा उपर्यंत्री ग्रा.या.से. अलीराजपुर |
| 63 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | श्री मनोज नियम परियोजना अधिकारी जिला पंचायत अलीराजपुर |
| 64 | 191 अलीराजपुर / 192 जोबट | रिजर्व | श्री पी.के. परमार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग अलीराजपुर |